

वार्तालाप सी.डी. नं. 296, तारीख: 9.02.07, लखनऊ, 17.04.07, अनंतपुर  
Disc.CD No.296, dated 9.02.07 at Lucknow and 17.04.07 at Anantpur

### 1. Lucknow - 09.02.07

**Kisi bhai nay kaha:** Baba say drishti letey samay neend bahut aati hai.

**Baba nay jawaab diya:** Koi ko Murli suntey samay jyada neend aati hai, koi ko drishti letey samay jyada neend aati hai.

**Kisi bhai nay poocha:** Ye bhi hisaab leti hai Baba?

**Baba nay jawaab diya:** Ye hisaab-kitaab hai.

**Bhai nay kaha:** Sab hisaab ley rahey hain Baba.

**Baba nay jawaab diya:** Aur kya?

**Bhai nay kaha:** Matlab jitna scene hai sangam ka sab kalyaankaari hai.

**Baba nay jawaab diya:** Hai toh sab kalyaankaari. Drama kalyaankaari, nahee toh drama kalyaankaari nahee. Hisaab-kitaab poora ho raha hai, voh halkey nahee ho rahey hain? Halkey ho rahey hain toh kalyaan ho raha hai ya akalyaan ho raha hai?

**Kisi bhai nay kaha:** Baba meri lokik mataji hamesha jab bhi baat, shaadi ke baarey may baatein kartee hain. Toh mai unko gyaan kay point kay through bahut question bol jata hun. Uchh swar may ki - Baba toh aisa boltey hain - pavitra duniya kee sthaapnaa ho rahee hai. Pavitra ban-na hai.

**Baba nay poocha:** Mataji gyaan may chaltee hain?

**Bhai nay jawaab diya:** Nahee Baba.

**Baba nay kaha:** Nahee chaltee hain toh unko gyaan kyon sunaatey ho?

**Bhai nay kaha:** Voh Baba baar-baar isee cheez ko. Toh ham jab kahtey hain toh unko....

**Baba nay kaha:** Jo gyaan may nahee chaltee hain voh chalan say change hongey. Voh gyaan sun-nay say change nahee hongey. Gyaan jo suntey hain, gyaan may chaltee hain, unko gyaan kay points sunaane say kuch parivartan ho saktaa hai.

### 2. Anantpur - 17.04.07

**Kisi bhai nay poocha:** Baba jo 2036 hotey hain, usmay sabkee aayu samaan hogi?

**Baba nay jawaab diya:** Sabkee aayu samaan nahee hoti hai kuch na kuch antar rahtaa hai. Jab alag-alag dharmon kee aatmaen hain, alag-alag dharmon ka chilkaa chadhaa hua hai, toh koi toh jaldee chilkaa utar jaayega, koi ka chilkaa sabsey baad may utrega. Lekin chilkaa toh utrega. Aur pakkey beej toh banengey, 84 janma leney vaaley. Jo Radha-Krishna jaisey bachhon ko janma deney vaaley hongey, voh yaheen kanchankaya banaavengy.

### 1. लखनऊ—09.02.07

किसी भाई ने कहा — बाबा से दृष्टि लेते समय नींद बहुत आती है।

बाबा ने जवाब दिया — कोई को मुरली सुनते समय ज्यादा नींद आती है। कोई को दृष्टि लेते समय ज्यादा नींद आती है।

किसी भाई ने पूछा — ये भी हिसाब लेती है बाबा?

बाबा ने जवाब दिया — ये हिसाब-किताब है।

भाई ने कहा — सब हिसाब ले रहे हैं बाबा। अनंतपुर

बाबा ने जवाब दिया — और क्या?

भाई ने कहा — मतलब जितना सीन है संगम का, सब कल्याणकारी है।

बाबा ने जवाब दिया – है तो सब कल्याणकारी। ड्रामा कल्याणकारी, नहीं तो ड्रामा कल्याणकारी नहीं। हिसाब-किताब पूरा हो रहा है, वो हल्के नहीं हो रहे हैं? हल्के हो रहे हैं तो कल्याण हो रहा है या अकल्याण हो रहा है?

किसी भाई ने कहा – बाबा, मेरी लौकिक माता जी हमेशा जब भी बात, शादी के बारे में बातें करती हैं। तो मैं उनको ज्ञान के प्वाइन्ट के थू बहुत कुछ बोल जाता हूँ उच्च स्वर में कि – बाबा तो ऐसा बोलते हैं – पवित्र दुनियाँ की स्थापना हो रही है, पवित्र बनना है।

बाबा ने पूछा – माता जी ज्ञान में चलती हैं?

भाई ने जवाब दिया – नहीं बाबा।

बाबा ने कहा – नहीं चलती हैं तो उनको ज्ञान क्यों सुनाते हो?

भाई ने कहा – वो बाबा बार-बार इसी चीज को, तो हम जब कहते हैं तो उनको.....

बाबा ने कहा – जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो चलन से चेंज होंगे। वो ज्ञान सुनने से चेंज नहीं होंगे। ज्ञान जो सुनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, उनको ज्ञान के प्वाइन्ट्स सुनाने से कुछ परिवर्तन हो सकता है।

## 2. अनंतपुर-17.04.07

किसी भाई ने पूछा – बाबा, जो 2036 होते हैं, उसमें सबकी आयु समान होगी?

बाबा ने जवाब दिया – सबकी आयु समान नहीं होती है। कुछ न कुछ अंतर रहता है। जब अलग-अलग धर्मों की आत्माएँ हैं, अलग-अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, तो कोई तो जल्दी छिलका उतर जाएगा, कोई का छिलका सबसे बाद में उतरेगा। लेकिन छिलका तो उतरेगा और पक्के बीज तो बनेंगे, 84 जन्म लेने वाले। जो राधा-कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले होंगे, वो यहीं कंचनकाया बनावेंगे।

## 1. Lucknow - 09.02.07

**A brother asked:** I feel very sleepy while taking *drishti* from Baba.

**Baba replied:** Some feel sleepier while listening to Murlī. Some feel sleepier while taking *drishti*.

**A brother asked:** Is this also a karmic account, Baba?

**Baba replied:** This is a karmic account.

**A brother said:** Everyone is clearing his/her karmic account with us Baba.

**Baba replied:** Oh! Yes.

**A brother said:** It means that all the scenes of the Confluence Age are beneficial.

**Baba replied:** Everything is beneficial. The drama is beneficial; otherwise drama is not beneficial. The karmic account is getting settled, are they not becoming light? They are becoming light. So, is it beneficial or non-beneficial?

**A brother said –** Baba, whenever my *lokik* mother talks (to me), she talks of (my) marriage. So, I speak to her in a loud voice through points of knowledge that – Baba says like this – Pure world is getting established; we have to become pure.

**Baba asked –** Does your mother follow the path of knowledge?

**The brother replied –** No, Baba.

**Baba said –** If she does not follow (the path of knowledge), then why do you narrate the knowledge to her?

**The brother said –** Baba, she insists on the same thing again and again; so, when I tell her something.....

**Baba said** - Those who do not follow the path of knowledge would change by [observing] the behaviour (of those who follow the path of knowledge). They would not change by listening to knowledge. Some change can be brought about by narrating the points of knowledge to those who listen to knowledge and follow the path of knowledge.

## **II Anantpur-17.04.07**

**A brother asked** – Baba, will everybody's age be the same in 2036?

**Baba replied** – Everybody's age would not be equal. There would be some or the other difference. When there are souls belonging to different religions, when they are covered by the peels of different religions, then some peels would get removed sooner and the peels of some would get removed in the last. But the peel would get removed and they would become strong seeds, who take 84 births. Those who would give birth to the children like Radha and Krishna, would make their bodies *kanchankaya* (i.e. rejuvenate their body) here itself.

.....

Note: The words in italics are Hindi words. Some words have been added in the brackets by the translator for better understanding of the translation.